

कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा युवाओं में कौशल विकास, नेतृत्व एवं सामुदायिक विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा नेहरू युवा केन्द्र बरेली के सहयोग से दिनांक ०६.०२.२०१७ से १०.०२.२०१७ तक युवाओं में कौशल विकास, नेतृत्व एवं सामुदायिक विकास विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम अन्तर्गत युवाओं को कौशल विकास, नेतृत्व एवं सामुदायिक विकास से संबंधित व्याख्यान प्रस्तुत किये गये। नेहरू युवा केन्द्र के जिला समन्वयक डा० दिनेश यादव द्वारा युवाओं को नेहरू युवा केन्द्र के उद्देश्यों के विषय में तथा नेहरू युवा केन्द्र द्वारा युवाओं हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारियाँ दी गयी। साथ ही उन्होंने स्वतः रोजगार और मतदाता जागरूकता पर भी अपने व्याख्यान में फोकस किया। कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रभारी डा० बृजपाल जी द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा युवाओं एवं कृषको के विकास हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में तथा कृषि तथा पशुपालन में रोजगार के विभिन्न आयामों पर विस्तृत जानकारी दी गई। इस पाँच दिवसीय प्रशिक्षण में स्वच्छ भारत मिशन अभियान के अन्तर्गत सभी युवाओं को स्वच्छ भारत सफल भारत बनाने की शपथ दिलायी तथा युवाओं ने भी स्वच्छता के प्रति जागरूकता को गाँव-गाँव तक पहुंचाने के बारे में अपने संकल्प दोहराये। नेहरू युवा केन्द्र के अन्य अधिकारियों द्वारा भी युवा नेतृत्व और सामुदायिक विकास कैसे हो आदि विषय पर जानकारियाँ प्रदान की गयी। कृषि एवं पशुपालन में उद्यमिता विकास के सम्बन्ध में मधुमक्खी पालन, सूकर पालन, मछली पालन, डेयरी पालन से सम्बन्धित प्रदर्शन भी प्रशिक्षणार्थियों को दिखाये गये। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षणार्थियों को कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रदर्शन फार्म पर भ्रमण कराया और युवाओं द्वारा पूछे गए सवालों का विस्तारपूर्वक समाधान किया गया। साथ ही युवा नेतृत्व एवं सामुदायिक विकास, कृषि एवं पशुपालन आधारित फिल्म द्वारा भी युवाओं का ज्ञान वर्धन किया गया।



